

הַשָּׁמֶן	לֵג	וְאֶת־	לְאִשָּׁם	אֹתוֹ	וְהִקְרִיב	הָאֶחָד	הַכֹּבֵשׂ	אֶת־	הַכֹּהֵן	וְלָקַח	12
तेल	लोग	और-को	दोषबलि के लिए	उसे	और-चढ़ाएगा	एक	मेमने	को	याजक	और-लेगा	
H8081	H3849	H0853	H0817	H0853	H7126	H0259	H3532	H0853	H3548	H3947	

וְהִנִּיחַ	אֹתָם	הַנּוֹפֵה	לְפָנָי	יְהוָה:
एक	और-हिलाएगा	उन्हें	हिलाने की भेंट	सामने
H3068	H6440	H8573	H6440	H3068

याजक नर मेमनों में से एक को दोषबलि के रूप में चढ़ाएगा। वह उस मेमनों और उस तेल को यहोवा के सामने उत्तोलन बलि के रूप में चढ़ाएगा।

וְשָׁחַט	אֶת־	הַכֹּבֵשׂ	בְּמִקּוֹם	אֲשֶׁר	יִשָּׁחַט	אֶת־	הַחֲטָאת	וְאֶת־	הָעֹלָה	בְּמִקּוֹם	הַקֹּדֶשׁ	13
और-मारेगा	को	मेमने	में-जगह	जो	मारेगा	को	पापबलि	में-जगह	जो	मारेगा	को	
H6944	H4725	H3532	H4725	H3532	H0853	H0853	H0853	H0853	H4725	H4725	H6944	

לִי	חֹמֶשׁ	הוּא	לְכֹהֵן	קֹדֶשׁ	קֹדְשִׁים	הוּא:
होमबलि	में-स्थान	पापबलि	के समान	होमबलि	क्योंकि	कोदश कोदश
H0817	H1931	H3548	H6944	H1931	H6944	H1931

तब याजक नर मेमने को उसी पवित्र स्थान पर मारेगा जहाँ वे पापबलि और होमबलि को मारते हैं। दोषबलि, पापबलि के समान है। यह याजक की है। यह अत्यन्त पवित्र है।

וְלָקַח	הַכֹּהֵן	מִדָּם	הָאִשָּׁם	וְנָתַן	הַכֹּהֵן	עַל־	תְּנוּחָה	אָז	תְּמוּחָה	הַיְמָנִית	14
और-लेगा	याजक	से-लहू	दोषबलि	और-डालेगा	पर	तनोक	कान	शुद्ध होने वाले	दाहिनी	और-पर	
H3947	H3548	H1818	H0817	H5414	H3548	H8571	H0241	H2891	H3233	H3233	

וְעַל־	בְּהֵן	יָדוֹ	הַיְמָנִית	וְעַל־	בְּהֵן	רִגְלוֹ	הַיְמָנִית:
अंगूठा	उसके पैर	दाहिनी	और-पर	अंगूठा	उसके हाथ	दाहिनी	—
H0931	H3027	H3233	H0931	H0931	H7272	H3233	H3233

“याजक दोषबलि का कुछ खून लेगा और फिर याजक इसमें से कुछ खून शुद्ध किये जाने वाले व्यक्ति के दाँएँ कान के निचले सिरे पर लगाएगा। याजक कुछ खून उस व्यक्ति के हाथ के दाँएँ अंगूठे और दाँएँ पैर के अंगूठे पर लगाएगा।

וְלָקַח	הַכֹּהֵן	מִלֶּגַם	הַשָּׁמֶן	וַיִּצַק	עַל־	הַשְּׂמֵאלִית:
और-लेगा	याजक	से-लोग	तेल	एक	और-उंडेलेगा	उसकी बाँयी
H3947	H3548	H3849	H8081	H3332	H3709	H8042

याजक कुछ तेल भी लेगा और अपनी बाँयी हथेली पर डालेगा।

וְטָבַל	הַכֹּהֵן	אֶת־	אֲצָבָעוֹ	הַיְמָנִית	מִן־	הַשָּׁמֶן	אֲשֶׁר	עַל־	כַּפּוֹ	16
और-डुबोएगा	याजक	को	अपनी उंगली	दाहिनी	में-तेल	जो	पर	उसकी हथेली	बाँयी	
H2881	H3548	H0853	H0676	H3233	H8081	H3709	H3709	H3709	H3709	

הַשְּׂמֵאלִית	וְהִנִּיחַ	מִן־	הַשָּׁמֶן	בְּאֲצָבָעוֹ	שִׁבְעַ	פְּעָמִים	לְפָנָי	יְהוָה:
और-छिड़केगा	याजक	से-अपनी उंगली	सात	बार	सामने	यहोवा	—	—
H8042	H8081	H0676	H7651	H6471	H6440	H3068	H3068	H3068

तब याजक अपने दाँएँ हाथ की ऊँगलियाँ अपने बाएँ हाथ की हथेली में रखे हुये तेल में डुबाएगा। वह अपनी उँगली का उपयोग कुछ तेल यहोवा के सामने सात बार छिड़कने के लिए करेगा।

וּמִיֹּתָר	הַשָּׁמֶן	אֲשֶׁר	עַל־	כַּפּוֹ	וְיָן	הַכֹּהֵן	עַל־	תְּנוּחָה	אָז	תְּמוּחָה	17
और-से-बचे हुए	में-तेल	जो	पर	उसकी हथेली	डालेगा	याजक	पर	याजक	कान	तनोक	
H8081	H3709	H3709	H3709	H3709	H5414	H3548	H8571	H0241	H2891	H2891	

הַיְמָנִית	וְעַל־	בְּהֵן	יָדוֹ	הַיְמָנִית	וְעַל־	בְּהֵן	רִגְלוֹ	הַיְמָנִית	עַל־	הָאִשָּׁם:
दाहिनी	पर	लहू	दोषबलि	—	—	—	—	—	—	—
H3233	H0931	H3027	H3233	H0931	H7272	H3233	H1818	H0817	H0817	H0817

याजक अपनी हथेली का कुछ तेल शुद्ध किये जाने वाला व्यक्ति के दाँएँ कान के निचले सिरे पर लगाएगा। याजक कुछ तेल उस व्यक्ति के दाँएँ हाथ के अंगूठे और दाँएँ पैर के अंगूठे पर लगाएगा। याजक कुछ तेल दोषबलि के खून पर लगाएगा।

18
 והנוֹתָר וּבְשֵׁמֶן אֲשֶׁר עַל-כֶּף הַכֹּהֵן יָדוּן עַל-רֹאשׁ הַמִּזְבֵּחַ
 और-बचा हुआ में-तेल जो पर हथेली याजक डालेगा पर सिर शुद्ध होने वाले
[H2891](#) [H5414](#) [H3548](#) [H3709](#) [H8081](#) [H3498](#)

וְכִפֶּר עָלָיו וְהָיָה
 और-प्रायश्चित्त करेगा पर-वह याजक सामने यहोवा
[H3068](#) [H6440](#) [H3548](#)

याजक अपनी हथेली में बचा हुआ तेल शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के सिर पर लगाएगा। इस प्रकार याजक उस व्यक्ति के पाप का यहोवा के सामने भुगतान करेगा।

19
 וְעָשָׂה הַכֹּהֵן אֶת-תְּחֻמֹּתַי וְכִפֶּר עַל-הַמִּזְבֵּחַ מִמִּזְבְּחוֹתָיו וְאָחָר
 और-करेगा याजक को पापबलि और-प्रायश्चित्त करेगा पर शुद्ध होने वाले से-अशुद्धता उसकी
[H2932](#) [H2891](#) [H0853](#) [H3548](#)

וְשָׁח אֶת-הָעֹלָה
 और-उसके बाद मारेगा याजक
[H0853](#)

“उसके बाद याजक पापबलि चढ़ाएगा और व्यक्ति के पापों का भुगतान करेगा जिससे वह शुद्ध हो जाएगा। इसके पश्चात याजक होमबलि के लिए जानवर को मारेगा।

20
 וְהָעֹלָה הַכֹּהֵן אֶת-הָעֹלָה וְאֶת-הַמִּנְחָה וְאֶת-הַמִּזְבֵּחַ עַל-וֵדֵי הַכֹּהֵן
 और-चढ़ाएगा याजक को होमबलि और-को अन्नबलि पर-वेदी पर
[H3548](#) [H0853](#) [H3548](#) [H5927](#) [H4196](#) [H4503](#) [H0853](#)

וְשָׁח אֶת-הָעֹלָה
 और-शुद्ध होगा और-शुद्ध होने वाले
[H2891](#)

तब याजक होमबलि और अन्नबलि को वेदी पर चढ़ाएगा। इस प्रकार याजक उस व्यक्ति के पापों का भुगतान करेगा और वह व्यक्ति शुद्ध हो जायेगा।

21
 וְאִם-גָּרִיב הוּא וְאִין אִין וְאִין אִין וְאִין אִין וְאִין אִין
 और-यदि गरीब वह और-नहीं और-नहीं और-नहीं और-नहीं और-नहीं
[H8573](#) [H0817](#) [H0259](#) [H3532](#) [H3947](#) [H5381](#) [H3027](#) [H0369](#) [H1931](#) [H1800](#)

וְכִפֶּר עָלָיו וְעָשָׂה אֶת-כָּל-עֲשֵׂי הַכֹּהֵן
 और-एक
[H8081](#) [H3849](#) [H4503](#) [H8081](#) [H0259](#) [H5560](#) [H6241](#)

“किन्तु यदि व्यक्ति गरीब है और उन बलियों को देने में असमर्थ है तो उसे एक मेमना दोषबलि के रूप में लेना चाहिए। यह उत्तोलनबलि होगी जिससे याजक उसके पापों के भुगतान के लिए देगा। उसे दो क्वार्टल तेल मिला उत्तम महीन आटा लेना चाहिए। यह आटा अन्नबलि के रूप में उपयोग में आएगा। व्यक्ति को दो तिहाई पिन्ट जैतून का तेल

22
 וְשָׁח אֶת-תְּרֵי תַרְיִים אֵין אֵין אֵין אֵין אֵין אֵין
 और-दो फाख्ताओं दो
[H0259](#) [H1961](#) [H3027](#) [H5381](#) [H3123](#) [H8147](#) [H8449](#) [H8147](#)

וְאָחָר וְהָאֵין אֵין
 और-एक पापबलि के लिए होमबलि के लिए
[H0259](#)

और दो फ्राख्ते या दो कबूतर के बच्चे लेने चाहिए। इन चीजों को देने में गरीब लोग भी समर्थ होंगे। एक पक्षी पापबलि के लिए होगा और दूसरा होमबलि का होगा।

29 וְהַנּוֹתָר אֶת-הַשֶּׁמֶן מִן-הַשֶּׁמֶן אֲשֶׁר-עַל-כַּף הַכֹּהֵן יָהֵן עַל-רֹאשׁ
 और-बचे हुए और-तेल से-तेल जो पर उसकी हथेली पर याजक डालेगा पर सिर शुद्ध होने वाले

H5414 H3548 H3709 H8081 H3498

הַמִּטְהָר לְכַפֵּר עָלָיו לִפְנֵי יְהוָה:
 प्रायश्चित्त करने के लिए पर-वह सामने यहोवा —
 H2891 H6440 H3068

याजक को अपनी हथेली के बचे हुये तेल को शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के सिर पर डालना चाहिए। इस प्रकार यहोवा के सामने याजक उस व्यक्ति के पापों का भुगतान करेगा।

30 וְעָשָׂה אֶת-הָאֲחֹרֹת מִן-הַתְּרִיִּים אֵין מִן-בְּנֵי הַיּוֹנָה מֵאֲשֶׁר תִּשִּׂי
 और-चढ़ाएगा से-एक से-फाख्ताओं या से-एक से-चूर्जों कबूतर जो पहुँचती पक्षियों का हाथ उसका

H5381 H3123 H8449 H259 H853

יָדָיו:
 —
 H3027

“तब व्यक्ति फाख्तों में से एक या कबूतर के बच्चों में से एक की बलि चढ़ाएगा। गरीब लोग भी इन पक्षियों को भेंट करने में समर्थ होंगे।

31 אֶת-אֲשֶׁר-תִּשִּׂי יָדָיו אֶת-הָאֲחֹרֹת מֵאֲשֶׁר תִּשִּׂי יָדָיו אֶת-הָאֲחֹרֹת
 और-प्रायश्चित्त करेगा को जो पहुँचती उसका हाथ से-जो से-जो पापबलि के लिए और-को

H0259 H0853 H0259 H0853 H3027 H5381 H0853

עַל-הוֹמָבַלִּים הַמִּטְהָר עַל-הַכֹּהֵן וְכַפֵּר עַל-הַמִּטְהָר לִפְנֵי יְהוָה:
 होमबलि के लिए और-को अन्नबलि अन्नबलि और-को होमबलि के लिए —
 H4503 H3548 H2891 H6440 H3068

व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार बलि चढ़ानी चाहिए। उसे पक्षियों में से एक को पापबलि के रूप में चढ़ाना चाहिए और दूसरे पक्षी को होमबलि के रूप में उसे उनकी अन्नबलि के साथ भेंट चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार याजक यहोवा के सामने उस व्यक्ति के पाप का भुगतान करेगा और वह व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा।”

32 וְנָתַתְּ אֶת-תּוֹרַת אֲשֶׁר-בּוֹ גִּנֵּעַ צִרְעָתָהּ לְאֵשׁ תִּשִּׂי יָדָיו בְּטַהֲרָתוֹ:
 और-प्रायश्चित्त करेगा याजक पर शुद्ध होने वाले सामने यहोवा द्वार तम्बू मिलाप को-जो

H2893 H3027 H5381 H3808 H6883 H5061 H8451 H2063

פ
 —

ये भयानक चर्मरोग के ठीक होने के बाद किसी एक व्यक्ति के लिए हैं जो शुद्ध करने के नियम हैं। ये नियम उन व्यक्तियों के लिए हैं जो शुद्ध होने के लिए सामान्य बलियों का व्यय नहीं उठा सकते।

33 וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה וַיֹּאמֶר אֵל-יְהוָה וַיֹּאמֶר אֵל-יְהוָה
 यह व्यस्था कीदी जो नहीं पहुँचती उसका हाथ

H0559 H0175 H0413 H4872 H0413 H3068 H1696

यहोवा ने मूसा और हारून से यह भी कहा,

34 כִּי-תָבֵאוּ אֶרֶץ אֲרָץ מִצְרָיִם אֲשֶׁר-הָרָאָה לְבָרְכֵם וְנִתְּנָה לְאֶחָדָה וְנִתְּנָה לְבָרְכֵם
 और-बोला और-बोला यहोवा को मूसा और-को हारून कहने

H6883 H5061 H5414 H0272 H5414 H0589 H0776 H0413 H0935

בְּבֵית אֲרָץ אֲחֻזְתְּכֶם:
 —
 H0272 H0776

“मैं तुम्हारे लोगों को कनान देश दे रहा हूँ। तुम्हारे लोग इस भूमि पर जाएंगे। उस समय मैं हो सकता है, कुछ लोगों के घरों में फफूँदी लगा दूँ।

35 וְבֵּן אֲשֶׁר-לֹ הַבַּיִת וְהַיִּיד לְכֹהֵן לֵאמֹר כְּנִיעַ נִרְאָה לִי בַבַּיִת: 35
जब तुम आओगे देश को कनान देश के लिए अधिकार के लिए और-में दूंगा रोग कोढ़ में-घर देश: 35
H0935 H5046 H3548 H0559 H5061 H7200

तो उस घर के मालिक को याजक के पास आकर कहन चाहिए, 'मैंने अपने घर में फफूँदी जैसी कोई चीज देखी है।'

36 וַיֹּצִיחַ הַכֹּהֵן וַיֵּאמֶר אֶת-בְּיָדוֹ וַיִּבֶן יָבֵן הַבַּיִת בְּטָרִם וַיֵּבֶן יָבֵן הַכֹּהֵן לְרֵאשִׁית אֶת- 36
और-आदेश देगा याजक और-खाली किया जाएगा को और-खाली किया जाएगा पहले घर को को देखने के लिए याजक को 36
H6680 H3548 H0853 H6437 H2962 H0935 H3548 H7200 H0853

37 וְהָיָה הַנֶּגַע הַזֶּה וְלֹא יִטְמָא כָּל-אֲשֶׁר בַּבַּיִת וְאַחַר כֵּן יָבֵן הַכֹּהֵן לְרֵאשִׁית 37
रोग और-नहीं अशुद्ध होगा सब जो में-घर और-उसके बाद याजक को देखने के लिए याजक को 37
H5061 H3808 H3605 H0935 H3548 H7200

אֶת-הַבַּיִת: 37
रोग — H0853

"तब याजक को आदेश देना चाहिए कि घर को खाली कर दिया जाय। लोगों को याजक के फफूँदी देखने जाने से पहले ही यह करना चाहिए। इस तरह घर की सभी चीज़ों को याजक को असुद्ध नहीं कहना पड़ेगा। लोगों द्वारा घर खाली कर दिए जाने पर याजक घर में देखने जाएगा।

37 וְרֵאשִׁית אֶת-הַנֶּגַע וְהָיָה הַנֶּגַע וְהָיָה אֶת-הַנֶּגַע וְהָיָה אֶת-הַנֶּגַע 37
और-देखेगा की रोग और-देखी रोग और-देखी रोग 37
H7200 H0853 H5061 H2009 H5061 H7023 H8258 H3422 H0125

וּמִרְאֵיתוֹ וְהָיָה הַנֶּגַע מִן-הַקִּיר: 37
और-उनकी दिखावट नीची से-दीवार से-दीवार 37
H4758 H8217 H7023

याजक फफूँदी को देखेगा। यदि फफूँदी ने घर की दीवारों पर हरे या लाल रंग के चकत्ते बना दिए हैं और फफूँदी दीवार की सतह पर बढ़ रही है,

38 וַיִּצָא הַכֹּהֵן מִן-הַבַּיִת אֶל-פֶּתַח הַבַּיִת וְהִסְגִּיר אֶת-הַבַּיִת שִׁבְעַת 38
और-जाएगा याजक से-घर को द्वार और-बंद करेगा को घर सात दिन 38
H3318 H3548 H0413 H6607 H5462 H0853 H7651

יָמִים: 38
— H3117

तो याजक को घर से बाहर निकल आना चाहिए और सात दिन तक घर बन्द कर देना चाहिए।

39 וַיָּשָׁב הַכֹּהֵן בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי וַיֵּרָא וְהָיָה פְּשָׁה וְהָיָה הַנֶּגַע בְּקִירָתוֹ הַבַּיִת: 39
और-लौटेगा याजक में-दिन सातवें और-देखी और-देखी और-देखी रोग और-दीवारों में-दीवारों घर 39
H7725 H3548 H3117 H7637 H7200 H2009 H6581 H5061 H7023

"सातवें दिन, याजक को वहाँ लौटना चाहिए और घर की जाँच करनी चाहिए। यदि घर की दीवारों पर फफूँदी फैल गई हो

40 וַיֹּצִיחַ הַכֹּהֵן וַיֵּאמֶר אֶת-הַנֶּגַע וְהָיָה הַנֶּגַע וְהָיָה אֶת-הַנֶּגַע 40
और-आदेश देगा याजक और-निकालेंगे को और-निकालेंगे पत्थरों जिनमें रोग और-डालेंगे और-डालेंगे 40
H6680 H3548 H0853 H0068 H0853 H7993 H5061 H0413 H0853

מִחוּץ לְעִיר אֶל-מְקוֹם אֲשֶׁר- 40
नगर को स्थान अशुद्ध 40
H2931 H4725 H0413

तो याजक को लोगोंको आदेश देना चाहिए कि वे फफूँदी सहित पत्थरों को उखाड़ें और उन्हें दूर फेंग दें। उन्हें उन पत्थरों को नगर से बाहर विशेष अशुद्ध स्थान पर फेंकना चाहिए।

41 וְאֶת־ הַבַּיִת יִקְצַע מִבַּיִת סָבִיב וְשָׂכְנוֹ אֶת־ הָעֵפֶר אֲשֶׁר הִקְצִו אֵלָיִךְ מִחוּץ 41
 और-को घर से भीतर चारों ओर और-डालेंगे मिट्टी जो खुरचा को बाहर
[H2351](#) [H0413](#) [H7096](#) [H6083](#) [H0853](#) [H8210](#) [H5439](#) [H0853](#)

לְעִיר אֶל־ מְקוֹם טָמֵא:
 नगर को स्थान अशुद्ध
[H2931](#) [H4725](#) [H0413](#)

तब याजक को पूरे घर को अन्दर से खुरचा डालना चाहिए। लोगों को उस लेप को जिसे उन्होंने खुरचा है, फेंक देना चाहिए। उन्हें उस लेप को नगर के बाहर विशेष अशुद्ध स्थान पर डालना चाहिए।

42 וְלִקְחוּ אֲבָנִים אַחֲרֵי־כֵן וְהִבִּיאוּ אֵלַיִךְ נִחַת הָאֲבָנִים וְעִפְרָן אַחֲרָיִךְ יִקַּח וְטָח אֶת־ 42
 और-लेगे पत्थर और-लगाएंगे पत्थरों और-लगाएंगे निकाले हुए तहत पत्थरों और-लगाएंगे और-उसके बाद उसके बाद पत्थरों और-उसके बाद और-उसके बाद
[H0853](#) [H3947](#) [H0312](#) [H6083](#) [H0068](#) [H8478](#) [H0413](#) [H0935](#) [H0312](#) [H0068](#) [H3947](#)

הַבַּיִת:

तब उस व्यक्ति को नए पत्थर दीवारों में लगाने चाहिए और उसे उन दीवारों को नए लेप से ढक देना चाहिए।

43 וְאִם־ יָשׁוּב הַגֵּנֶעַ וּפָרַח מִבַּיִת אַחֲרָיִךְ חִלְצֵךְ אֶת־ הָאֲבָנִים וְאֶחָדִי מֵהַקְּצוֹת 43
 और-यदि लौटेगा रोग और-फैलेगा और-फैलेगा और-घर में-घर उसके बाद खुरचने के पत्थरों को पत्थरों और-उसके बाद और-उसके बाद और-उसके बाद
[H7096](#) [H0068](#) [H0853](#) [H5061](#) [H7725](#)

אֶת־ הַבַּיִת וְאֶחָדִי מֵהַקְּצוֹת:
[H0853](#)

“सम्भव है कोई व्यक्ति पुराने पत्थरों और लेप को निकाल कर नए पत्थरों और लेप को लगाए और सम्भव है वह फफूँदी उस घर में फिर प्रकट हो।

44 וּבֹא וְהִבִּיאוּ אֵלַיִךְ וְרָאָה וְהִנֵּה וְהִנֵּה פֶשֶׁה הַגֵּנֶעַ מִבַּיִת צָרַעַת מִמְאֲרַת הוּא מִבַּיִת טָמֵא 44
 और-आएगा याजक और-देखेगा और-देखो और-देखो और-देखो और-देखो और-घर में-घर कोढ़ वह फूटी और-घर में-घर अशुद्ध
[H2931](#) [H1931](#) [H3992](#) [H6883](#) [H5061](#) [H6581](#) [H2009](#) [H7200](#) [H3548](#) [H0935](#)

הוּא:
 वह
[H1931](#)

तब याजक को आकर उस घर की जाँच करनी चाहिए। यदि फफूँदी घर में फैल गी हो तो यह रोग है जो दूसरी जगहों में जल्दी से फैलता है। अतः घर अशुद्ध है।

45 וְנָתַן אֶת־ הַבַּיִת אֶת־ אֲבָנָיו וְאֶת־ עֲצָיו וְאֶת־ כָּל־ עֵפֶר 45
 और-तोड़ेगा को और-तोड़ेगा उसके पत्थर घर को और-उसकी लकड़ी और-उसकी लकड़ी और-को और-को उसकी मिट्टी और-निकालेगा और-को बाहर
[H6083](#) [H3605](#) [H0853](#) [H6086](#) [H0853](#) [H0068](#) [H0853](#) [H0853](#) [H5422](#)

הַבַּיִת וְהוֹצִיא אֶל־ מִחוּץ לְעִיר אֶל־ מְקוֹם טָמֵא:
 नगर को स्थान अशुद्ध
[H2931](#) [H4725](#) [H0413](#) [H2351](#) [H0413](#) [H3318](#)

उस व्यक्ति को वह घर गिरा देना चाहिए। उन्हें सारे पत्थर, लेप तथा अन्य लकड़ी के टुकड़ों को नगर से बाहर अशुद्ध स्थान पर ले जाना चाहिए

46 וְהָבֵא אֶל־ הַבַּיִת כָּל־ יְמֵי הַסִּנְיָר אֲתוֹ יִטָּמָא עַד־ הָעֶרֶב:
 और-आने वाला को और-आने वाला घर में-सब दिनों के बंद होने के अशुद्ध होगा तक शाम तक
[H6153](#) [H5704](#) [H0853](#) [H5462](#) [H3117](#) [H3605](#) [H0413](#) [H0935](#)

और कोई व्यक्ति जो उसमें जाता है, सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा।

47 וְהִשְׁכַּב מִבַּיִת יְכַסֵּס אֶת־ בְּנָדָיו וְהִשְׁכַּב מִבַּיִת יְכַסֵּס אֶת־ שָׁמַיִם 47
 और-सोने वाला और-सोने वाला घर में-घर धोएगा अपने वस्त्र धोएगा और-घर में-घर तक तक
[H0853](#) [H3526](#) [H0398](#) [H0853](#) [H3526](#) [H7901](#)

यदि कोई व्यक्ति उसमें भोजन करता है या उसमें सोता है तो उस व्यक्ति को अपने वस्त्र धोने चाहिए।

48	וְאִם-	בָּא	יָבֵא	הַכֹּהֵן	וְרָאָה	וְהָיָה	לֹא-	פָּשָׁה	הַגֵּנֹעַ	בְּבֵית	אֲחֵרֵי
	और-यदि	आते-आएगा	याजक	और-देखेगा	और-देखो	नहीं	फैला	रोग	में-घर	उसके बाद	पोतने के
		H0935	H0935	H3548	H7200	H2009	H3808	H6581	H5061		
	הַטָּהַר	אֶת-	הַבֵּית	וְטָהַר	הַכֹּהֵן	אֶת-	הַבֵּית	כִּי	נִרְפָּא	הַגֵּנֹעַ:	
	को	घर	और-शुद्ध ठहराएगा	याजक	को	घर	क्योंकि	चंगा हुआ	रोग	—	
		H0853	H2891	H2891	H3548	H0853		H7495	H5061		

“घर में नये पत्थर और लेप लगाने के बाद याजक को घर की जाँच करनी चाहिए। यदि फफूँदी घर में नहीं फैली है तो याजक घोषणा करेगा की घर शुद्ध है! क्यों? क्योंकि फफूँदी समाप्त हो गई है!

49	וְלָקַח	לְחֹטֵא	אֶת-	הַבֵּית	שְׁתֵּי	צִפְּרִים	וְעֵץ	אֲרוֹז	וּשְׁנֵי	תּוֹלְעֹת	וְאַזְבִּ:
	और-लेगा	पाप दूर करने के लिए	को	घर	दो	पक्षी	या	दो	कबूतर	चूर्णों	—
	H3947	H2398	H0853		H8147	H6833	H6086	H0730	H8144	H0231	

“तब, घर को शुद्ध करने के लिए याजक को दो पक्षी, एक देवदारू की लकड़ी, एक लाल कपड़े का टुकड़ा और जूफा का पौधा लेना चाहिए।

50	וְשָׂחַט	אֶת-	הַצִּפּוֹר	הָאֶחָת	אֶל-	כְּלֵי-	חֲרָשׁ	עַל-	מַיִם	חַיִּים:
	और-मारेगा	को	पक्षी	एक	को	बर्तन	मिट्टी	पर	जल	जीवित
	H0853		H6833	H0259	H0413	H3627	H2789		H4325	

याजक बहते पानी के ऊपर मिट्टी के कटोरे में एक पक्षी को मारेगा।

51	וְלָקַח	אֶת-	עֵץ-	הָאֲרוֹז	וְאֶת-	הָאֲזָבִיב	וְאֶת-	שְׁנֵי	הַתּוֹלְעֹת	וְאֶת	הַצִּפּוֹר	הַחַיִּה
	और-लेगा	को	पक्षी	जीवित	और-को	लकड़ी	और-को	और-को	जरा	शनी	और-को	जूफा
	H3947	H0853	H6086	H0730	H0853	H0231	H0853	H8144	H0853	H0853	H6833	
	וְטָבַל	אֹתָם	בְּדָם	הַצִּפּוֹר	הַשְּׂחֻטָּה	וּבְמַיִם	הַחַיִּים	וְהָיָה	אֶל-	הַבֵּית	שִׁבְעַ	פְּעָמִים:
	और-डुबाएगा	उन्हें	में-लहू	पक्षी	मारे गए	और-में	जल	जीवित	—	—	—	—
	H2881	H0853	H1818	H6833		H4325		H0413		H7651	H6471	

तब याजक देवदारू की लकड़ी, जूफा का पौधा, लाल कपड़े का टुकड़ा और जीवित पक्षी को लेगा। याजक बहते जल के ऊपर मारे गए पक्षी के खून में उन चीज़ों को डुबाएगा। तब याजक उस खून को उस घर पर सात बार छिड़केगा।

52	וְחָטָא	אֶת-	הַבֵּית	בְּדָם	הַצִּפּוֹר	וּבְמַיִם	הַחַיִּים	וּבְצִפּוֹר	הַחַיִּה	וּבְעֵץ	הָאֲרוֹז
	और-पाप दूर करेगा	को	घर	में-लहू	पक्षी	और-में	जल	लकड़ी	देवदारू	और-में	शनी
	H2398	H0853		H1818	H6833	H4325		H6833	H6086	H0730	
	וּבְאֹזִב	וּבְשְׁנֵי	הַתּוֹלְעֹת:								
	और-में	जूफा	और-में								
		H8144	H0231								

इस प्रकार याजक उन चीज़ों का उपयोग घर को शुद्ध करने के लिए करेगा।

53	וְשָׂחַט	אֶת-	הַצִּפּוֹר	הַחַיִּה	אֶל-	מִחוּץ	לְעִיר	אֶל-	פְּנֵי	הַשָּׂדֶה	וְכִפְּרָ
	और-छोड़ेगा	को	पक्षी	जीवित	को	बाहर	नगर	को	सतह	खेत	और-प्रायश्चित करेगा
	H7971	H0853	H6833		H0413	H2351		H0413	H6440		
	עַל-	הַבֵּית	וְטָהַר:								
	पर	घर	और-शुद्ध होगा								
			H2891								

याजक खुले मैदान में नगर के बाहर जाएगा और पक्षी को उड़ा देगा। इस प्रकार याजक घर को शुद्ध करेगा। घर शुद्ध हो जाएगा।”

54	זָאת	הַתּוֹרָה	לְכָל-	גֵּנֹעַ	הַצִּרְעָת	וְלִנְתָק:
	यह	व्यवस्था	सब के लिए	रोग	कोढ़	और-के लिए
	H2063	H8451	H3605	H5061	H6883	H5424

वे नियम भयानक चर्मरोग के,

